

ग्रामीण कार्य विभाग

बिहार, पटना

पत्रांक:- RWD/GST CLAIM/25-26/1239 - 2567 अनु०

पटना/दिनांक:- ०९.०७.२०२५

प्रेषक,

अभय झा, भा०प्र०से०

अपर मुख्य कार्यपालक

पदाधिकारी-सह-सचिव, ब्राडा।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग,

कार्य अंचल-सीतामढ़ी।

विषय : MMGSY योजनान्तर्गत एकरारनामा संख्या-28/SBD/2022-23 पथ- Construction of road and CD work with maintenance for PMGSY road Behta to PMGSY road Behta में जी०एस०टी० दावा की स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग- कार्य प्रमंडल-पुपरी का पत्रांक-1664 अनु०, दिनांक-11.07.2024

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र के माध्यम से विषयांकित पथ में GST अंतर राशि रु 2,02,288/- का दावा की जाँच हेतु अभिलेख समर्पित किया गया है जिसके आधार पर विभागीय GST परामर्शी फर्म M/s SKKSS & Co. द्वारा उक्त दावों की जाँच की गई तथा राशि रु 2,02,288/- मात्र की राशि दावे के योग्य पाया गया है।

GST परामर्शी फर्म के प्रतिवेदन के आधार पर विभागीय GST समिति की अनुशंसा एवं परामर्शी के प्रतिवेदन निम्न शर्तों के साथ अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है:-

- कार्यपालक अभियंता GST Claim के भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित हो लेंगे कि संबंधित योजनान्तर्गत GST Claim का भुगतान पूर्व में न हुआ हो।
- भुगतान से पूर्व State MIS पर भुगतान की राशि को अपलोड कर दिया गया है।
- जिस संवेदक को भुगतान किया जा रहा है, वह कालीसूची में नहीं हैं।
- संबंधित योजना में ATR लम्बित नहीं है।
- कार्यपालक अभियंता पूर्ण रूप से यह सुनिश्चित कर लेंगे कि GST Claim की अनुशंसित राशि का भुगतान संबंधित संवेदक को संबंधित योजना में ही किया जा रहा है।
- एकरारनामा से अधिक राशि के भुगतान के लिए अतिरिक्त राशि का पूरक एकरारनामा कर लिया गया है।

अनु०- यथोक्त।

विश्वासभाजन



०९/०७/२५

अपर मुख्य कार्यपालक

पदाधिकारी-सह-सचिव, ब्राडा

ज्ञापक- RWD/GST CLAIM/25-26/1239 - 2567

पटना/दिनांक:- ०९.०७.२०२५

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल-पुपरी को सूचनार्थ।



०९/०७/२५

अपर मुख्य कार्यपालक

पदाधिकारी-सह-सचिव, ब्राडा

२२

ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

GST Claim के निष्पादन हेतु ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा गठित समिति की
दिनांक - २१.०३.२५.... को आहूत बैठक की कार्यवाही

विषय :- MMGSY योजनान्तर्गत Construction of Road and CD Works with maintenance for PMGSY Road Behta to PMGSY Road Behta
एकरारनामा संख्या 28 SBD/2022-23 में जी.एस.टी. दावा की स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग :- कार्य प्रमंडल पुपरी का पत्रांक 1664 दिनांक 11/07/2024

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र के आलोक में कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल पुपरी द्वारा विषयांकित पथ में रु. 2,02,288/- की जी.एस.टी. अंतर राशि का दावा जाँच हेतु समर्पित किया गया है। विभागीय पत्रांक 43/2023-761, दिनांक 23.03.2023 के आलोक में विभागीय जी.एस.टी. Consultant M/s SKKSS & Co. द्वारा दावे की जाँच की गई तथा रु. 2,02,288/- मात्र की राशि के दावे के योग्य पाया गया है।

तदालोक में एकरारनामा 28 SBD/2022-23 विषयांकित कार्य Construction of Road and CD Works with maintenance for PMGSY Road Behta to PMGSY Road Behta under MMGSY के लिए दावे की राशि रु. 2,02,288/- मात्र संवेदक सागर शंकर को भुगतान की अनुशंसा की जाती है।



Shweta Singh
विभागीय GST
Consultant

04/07/25
सहायक वित्त प्रबंधक,
ब्राडा

02/07/25
वित्त प्रबंधक, ब्राडा

21/07/25
GST नोडल पदाधिकारी

05.05.2025

To,
The Additional Chief Executive Officer,
Bihar Rural Road Development Agency
Rural Works Department
Government of Bihar.

Re. Submission of GST Impact Report of Sagar Shankar Works vide Agreement No. 28 SBD/2022-23

Ref: Our appointment as GST Consultant by Rural Works Department, vide agreement number BRRDA/01/GST Consultancy dated 24.02.2023 and EE, Pupri RWD letter no.1664 dated 11/07/2024.

Respected Sir,

We are appointed to recommend payment of GST Impact by analysing claim of contractors as per Scope of Work.

GST Impact Summary		
Agreement No.	Type of Supply	GST Impact (in ₹)
28 SBD/2022-23	Construction of Road and CD Works with maintenance for PMGSY Road Behta to PMGSY Road Behta under MMGSY.	202,288 (Annexure-I)

That the GST Impact calculation is made on the following premise:

- a) That the above work is –
Construction of Road and CD Works with maintenance for PMGSY Road Behta to PMGSY Road Behta under MMGSY.
- b) That with effect from 18th July 2022, the GST rate on works contract has been increased from 12% to 18% vide notification no. 03/2022 – Central Tax (Rate) dated 13.07.2022, hence for payment made after 18/07/2022 GST@18% is payable.
- c) The impact is being given from **RA Bill 01 to RA Bill 02.**
- d) The GST claim as submitted by contractor is **Rs.2,02,288/-** while as per our calculation it is **Rs.2,02,288/-** which results in savings of **Rs. 0/-**
- e) That we have verified the deposit of tax from the GST returns and hence, we recommend the payment.

Therefore, kindly do the needful in this regard.

For and on behalf of
SKKSS & Co.

Shweta Singh
05/05/23
Authorized Signatory
Enclosed: -



- 1) *GST claim computation*

Annexure -I

Sagar Shankar

28 SBD/2022-23

Construction of Road and C.D. Works with maintenance for PMGSY Road Behta to PMGSY Road Behta Under MMGSY

Sl. No	RA Bill NO.	Date of payment	Payment as per Payment Certificate (A)	Embedded Tax (B) [Note 1]	GST paid as per GSTR 3B (C)	Actual GST to be Paid (D = (A - B) x 18%)	Claim (E = (C or D, which is lower) - B)
1	1	16-08-2023	21,32,652	3,78,926	3,83,877	5,81,214	2,02,288
2	2	24-01-2024	14,75,240		2,65,543		
TOTAL			36,07,892		6,49,421		

Computation of Embedded taxes [Note 1]

Particulars	Amount	GST embedded in total work done (%)
Work Done Value excluding taxes etc (as per RA 02) (Page -22)	32,79,038	
GST @ 12%	3,93,485	10.503%
LWC @ 1%	32,790	
Seigniorage Fees	41,200	
Work Done Value Including taxes, cess & S.Fees	37,46,513	
Work Done Value Including taxes, cess & S.Fees (After 3.70% Below)	36,07,892	
Payment made as per RA 01 to RA 02	36,07,892	
Embedded tax @ 10.503%	3,78,926	



Note-2

GSTR-3B MONTHLY BREAKUP (September 2023) (Page -08)

Name of Division	Taxable Value	CGST @ 9%	SGST @ 9%	Total Tax
EXECUTIVE ENGINEER RURAL WORKS DEPARTMENT WORKS DIVISION PUPRI (RA-01)	21,32,652	1,91,939	1,91,939	3,83,877
TOTAL	21,32,652	1,91,939	1,91,939	3,83,877

Division has deducted GST TDS in the month of August 2023 and party has filed GSTR-3B return in the month of September 2023

GSTR-7 Details (August- 2023) (Page -69)

Name of Division	Taxable Value	CGST @ 1%	SGST @ 1%	Total Tax
EXECUTIVE ENGINEER RURAL WORKS DEPARTMENT WORKS DIVISION PUPRI	21,32,652	21,327	21,327	42,653
TOTAL	21,32,652	21,327	21,327	42,653

Note-3

GSTR-3B QUARTERLY BREAKUP (January to March 2024) (Page -04)

Name of Division	Taxable Value	CGST @ 9%	SGST @ 9%	Total Tax
EXECUTIVE ENGINEER RURAL WORKS DEPARTMENT WORKS DIVISION PUPRI (RA-02)	14,75,240	1,32,772	1,32,772	2,65,543
TOTAL	14,75,240	1,32,772	1,32,772	2,65,543

GSTR-7 Details (January- 2024) (Page -67)

Name of Division	Taxable Value	CGST @ 1%	SGST @ 1%	Total Tax
EXECUTIVE ENGINEER RURAL WORKS DEPARTMENT WORKS DIVISION PUPRI	14,75,240	14,752	14,752	29,505
TOTAL	14,75,240	14,752	14,752	29,505

Disclaimer : The above Workings have been prepared on the basis of documents provided by the Contractor.

